



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 18] नई दिल्ली, सितम्बर 17—सितम्बर 23, 2006, शनिवार/भाद्र 26—आश्विन 1, 1928
No. 18] NEW DELHI, SEPTEMBER 17—SEPTEMBER 23, 2006, SATURDAY/BIHADRA 26—ASVINA 1, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2006

का.नि.आ. 110.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (समूह 'ग' भंडार पद) भर्ती नियम, 1992 जहां तक उनका संबंध सहायक भंडार अधीक्षक, ज्येष्ठ भंडारी और भंडारी के पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो महानिदेशालय में भंडार स्टाफ के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो, भंडार स्टाफ, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संप्र लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भंडार अधीक्षक	31 * (2006)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' पर परिवर्तन किया जा सकता है।	5000-150-8000 रु.	अयचन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा

(7)

अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)

(9)

(10)

सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या विषय के रूप में सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मसी में डिप्लोमा या समतुल्य।

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

(12)

पिचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :

ऐसा ज्येष्ठ भंडारी जिसने नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पणी 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी,—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिसने मूल काडर या विभाग में 4000-100-6000 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष सेवा की है;

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

(i) सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या विषय के रूप में सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा

(12)

या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मसी में डिप्लोमा या समतुल्य; और

(ii) चिकित्सा भंडार डिपो में तीन वर्ष का अनुभव ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सश्र लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता ।

1. अपर महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (उपस्कर और भंडार) - अध्यक्ष
2. उप महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (प्रोविजनिंग) - सदस्य
3. कमान ऑफिसर सशस्त्र बल चिकित्सा सामान डिपो/सशस्त्र सेना आद्यान केन्द्र - सदस्य
4. निदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (योजना) - सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ भंडारी	62*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचित	4000-100- 6000 रु.	अयचन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसे भंडारी जिन्होंने उस श्रेणी में लगातार आठ वर्ष नियमित सेवा की हो ।

टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी,—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 3050-75-3950-80-4590 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष सेवा की है;

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं :

(i) सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या विषय के रूप में सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मसी में डिप्लोमा या समतुल्य; और

(ii) चिकित्सा भंडार डिपो में तीन वर्ष का अनुभव ।

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

- | | |
|---|-----------|
| 1. अपर महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा
(उपस्कर और भंडार) | — अध्यक्ष |
| 2. उप महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा
(प्रोविजनिंग) | — सदस्य |
| 3. कमान आफिसर सशस्त्र बल चिकित्सा सामान
डिपो/सशस्त्र सेना आद्यान केन्द्र | — सदस्य |
| 4. निदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (योजना) | — सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भंडारी	117*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है ।)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड,

३३०१ GI/०६-२

(7)

हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी या 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी की गति से टंकण के ज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण।

वांछनीय :

चिकित्सा सामान के रख-रखाव का अनुभव।

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. अपर महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (उपस्कर और भंडार) -- अध्यक्ष
2. उप महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (प्रोविजनिंग) -- सदस्य
3. कमान ऑफिसर सशस्त्र बल चिकित्सा सामान डिपो/सशस्त्र सेना आद्यान केन्द्र -- सदस्य
4. निदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (योजना) -- सदस्य

[फा. सं. 11353/आरआर/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/468/आरआर/रक्षा (नि.)/06]

वी. ऐ. चावडा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th September, 2006

S.R.O. 110.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Armed Forces Medical Service (Group 'C' Storekeeping Posts) Recruitment Rules, 1992 in so far as they relate to the posts of Assistant Store Superintendent, Senior Storekeeper and Storekeeper except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Storekeeping Staff in Armed Forces Medical Stores Depot under the Directorate General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Directorate General Armed Forces Medical Services, Armed Forces Medical Store Depot, Storekeeping staff, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Store Superintendent	31* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-selection	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in the case of General candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

(7)

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)

Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
---	---	-----------------------------

(8)

(9)

(10)

Diploma in Material Management or any Diploma having Material Management as a subject or Diploma in Pharmacy from a recognised University or Institution or equivalent.

Not applicable

Two years for direct recruits.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by transfer or by deputation, and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation or transfer the grades from which promotion, deputation or transfer to be made

(11)

(12)

Seventy five per cent by promotion failing which by deputation and twenty five percent by direct recruitment

Promotion : Senior Storekeeper with eight years service in the grade after appointment thereto on a regular basis.

Note.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who

(12)

have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers under the Central Government :—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;
- OR
- (ii) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4000—6000 or equivalent in the parent Cadre or department
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience :
- (i) Diploma in Material Management or any diploma having Material Management as a subject or Diploma in Pharmacy from a recognised University or Institution or equivalent; and
- (ii) Three years experience in a Medical Store Depot.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :—

Not applicable.

1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) —Chairman
2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services (Provisioning) —Member
3. Officer Commanding, Armed Forces Medical Stores Depot/Armed Forces Transfusion Centre —Member
4. Director Armed Forces Medical Services (Planning) —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Storekeeper	62* (2006) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion failing which by deputation	Promotion : From amongst Storekeepers with eight years regular continuous service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors

2809 GI/06-3

(12)

shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation—

Officers under the Central Government :

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
- (ii) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 3050-75-3950-80-4590 or equivalent in the parent cadre or department
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :—
- (i) Diploma in Material Management or any Diploma having Material Management as a subject or Diploma in Pharmacy from a recognised University or Institution or equivalent; and
- (ii) three years experience in a Medical Store Depot.

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee
(for promotion and confirmation) consisting of :—

Not applicable.

1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) —Chairman
2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services (Provisioning) —Member
3. Officer Commanding, Armed Forces Medical Stores Depot/Armed Forces Transfusion Centre —Member
4. Director Armed Forces Medical Services (Planning) —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Storekeeper	117* (2006) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050- 75-3950- 80-4590	Not- applicable	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in the case of General candi- dates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled

(7)

Tribes in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Note 2. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(8)

(9)

(10)

Essential : Matriculation pass with ability to type at a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.

Desirable : Experience in handling medical stores.

Not applicable

Two years for direct recruits

Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any state of selection, the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancies reserved for them.

(11)

(12)

By direct recruitment

Not applicable

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—	Not applicable.
1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores)	— Chairman
2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services (Provisioning)	— Member
3. Officer Commanding, Armed Forces Medical Stores Depot/Armed Forces Transfusion Centre	— Member
4. Director Armed Forces Medical Services (Planning)	— Member

[F. No. 11353/RR/DGAFMS/DG-2B/468/RR/D(A)/06]

V. A. CHAVDA, Under Secy.